

June 1, 2023

The Manager, Department of Corporate Services BSE Limited

Floor 25, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 BSE Scrip code – [532541] Equity ISIN INE591G01017 Non-Convertible Bond ISIN INE591G08012 The General Manager,
Department of Corporate Services
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra, Mumbai – 400 051
NSE Symbol – [COFORGE]

Dear Sir(s),

#### Sub: Newspaper publication-Intimation of Loss of Share Certificate.

Dear Sirs/Madam,

We wish to inform that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published the "Notice of Loss of Share Certificate" in the following newspapers on June 1, 2023

- a) Business Standard (Hindi)
- b) Business Standard (English)

Copy of newspaper clippings are attached.

Kindly take this on record and acknowledge receipt.

For Coforge Limited

Barkha Sharma Company Secretary ACS: 24060

CIN: L72100DL1992PLC048753

E-Auction Sale Notice to General Public APPENDIX-IV-A s your trust [See proviso to rule 8(6) Sale notice for sale of Immovable property

Zonal Office: 2nd Floor, Arcade International, Orbit Mall, Civil Lines, Ajmer Road, Jaipur-302026 E Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement o

Security Interest Act 2002, read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged Charged to the Secured Creditor, the Possession of which has been taken by the Authorised Officer of UCO Bank Secured Creditor, will be sold on "AS is where is", As is what is", and "Whatever there is" on 11.07.2023 from 1.00 PM to 5.00 PM for recovery of Bank's Dues as nentioned below plus interest and expenses due to the UCO Bank Secured Creditor from Following (Borrowers/Mortgagors/Guarantors). T ole schedule of Auction Proceedings is as under

Date of E-Auction: 11/07/2023 Time: 1.00 PM to 5.00 PM, Date of Visit: 17/06/2023 Time

Up to 11.00 AM to 1:00 PM, Date of EMD Submission: 11/07/2023 Up to 12:00 Noon Name of the Borrower Branch: Contact No. E-mail: Reserve Price **Description of Secured Assets** Branch: Contact No. 1-mail:

Branch: Lalsot (1118), Dausa, Raj.-303503, E-Branch: Lalsot (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Bharat Lal Meena S/O Jay Narayan Meena, Rr. Charat Lal Meena S/O Jay Narayan Meena and Mrs. Lali Devi Meena W/o Mr. Bharat Lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Bharat lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Bharat lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Bharat lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Bharat lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Bharat lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Bharat lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Bharat lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Bharat lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Bharat lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Bharat lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Bharat lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Bharat lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Bharat lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Bharat lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Bharat lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Charat Lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Charat Lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Charat Lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Charat Lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Charat Lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Charat Lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Charat Lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Charat Lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Charat Lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303503 in the name of Mr. Charat Lal Meena (1118), Dausa, Raj.-303 1067000/

| Possession lype: Physical | Expenses | Possession lype: Physical | Expenses | Possession lype: Physical | Expenses | Possession lype: Physical | Physical | Possession lype: Physical | Physica Date: 30.05.2023 Place: Laisot

SD/- Authorised Officer UCO Ban

<mark>UTTARAKHAND SAHKARI CHINI MILLS SANGH LTD. (UTTARAKHAND SUGARS</mark> NEAR RAILWAY CROSSING, BADRIPUR ROAD, JOGIWALA, DEHRADUN- 248001 (UTTARAKHANI Telephone No. :- 0135-2974413, E-mail:- uksugars@gmail.com, Website :- www.uttarakhandsugars.com, GST No. 05AABFU7713K2Z1

Letter No. 437/PUR/01/E-Tender/2023-24

Date: 31 May 2023 **E-Tender Notice for Rate Contract Items** 

G2

Online E-Tenders are invited from Manufactures/Authorized distributers (as per details given in the tender documents) for ROLLER SHAFT, PACKING & JOINTING, MS & GI PIPES AND STAINLESS STEEL TUBES to our Co-operative and Corporation sugar mills season 2023-24.

The details for submission of the E-Bids is available on the E-tender portals as per Table No. 01 www.uktenders.gov.in & www.uttarakhandsugars.com. The bidders will have to deposit Per Tender fees (Non Refundable) of Rs. 2,360/- (GST INCLUSIVE) & earnest money in the form of Demand Draft/ RTGS/NEFT/NET BANKING in favor of Uttaranchal Co-operative Sugar Factories Federation Limited Payable at Dehradun. Tenders without earnest money will not be accepted. The bank details are available inside the tender document.

The Federation reserves the right to cancel any or all bids/annual e-bidding process, without assigning and eason to & decision of Federation will be final & binding. **TABLE NO.01** 

SI. Name of the item		Starting date of loading of E-Tender	Time for Submission of e-bids	Technical & Financial bid opening at 10:30	E.M.D. (in Rs.)
		at 6:00 PM	at 06:00 PM	AM & 03:00 PM	
RATE CONTRACT FOR THE SUPPLY OF DIFFERENT ITEMS TO OUR SUGAR FACTORIES UTTARAKHAND STATE					
1.	ROLLER SHAFT	31-05-2023	12-06-2023	13-06-2023	70,000.00
2.	PACKING & JOINTING	31-05-2023	12-06-2023	13-06-2023	25,000.00
3.	MS & GI PIPES	31-05-2023	12-06-2023	13-06-2023	1,00,000.00
4.	STAINLESS STEEL TUBES	31-05-2023	12-06-2023	13-06-2023	50,000.00

इस निविदा के सम्बन्ध में सभी संशोधन, स्पष्टीकरण, शुद्धिपत्र, परिशिष्ट, समय वृद्धि आदि को केवल <u>www.uktenders.gov.in</u> & www.uttarakhandsugars.com पर ही दिया जायेगा। निविदादाता अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से इन

MANAGING DIRECTOR

### MAGELLANIC CLOUD LIMITED

CIN NO. L72100TG1981PLC169991 R.O. :Dallas Centre, 83/1,Plot No A1, 6th Floor, Hyderabad, Knowledge City Road, Rai Durg, Telangana 500032. WEBSITE: www.magellanic-cloud.com

#### STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER/YEAR ENDED 31 ST MARCH, 2023

	(Rs in lakt						
Sr.		Qı	uarter Ende	d	Year Ended		
No.	Particulars	31.03.2023 Audited	31.12.2022 Unaudited	31.03.2022 Unaudited	31.03.2023 Audited	31.03.2022 Audited	
1.	Total Income from Operation (Net)	2,122.02	1,491.94	536.29	5,610.51	1,767.82	
2.	Net Profit/(Loss) from Ordinary Activities After Tax	143.77	476.23	45.59	1,061.80	271.97	
3.	Net Profit/(Loss) for The Period After Tax (After Extraordinary items)	143.77	476.23	45.59	1,061.80	271.97	
4.	Equity Share Capital	11,687.90	2,808.63	2,516.69	11,687.90	2,516.69	
5.	Reserves (Excluding Revaluation Reserve as Shown In The Balance Sheet of Previous Year)	-	-	-	6,120.93	1,431.68	
6.	Earning Per Share (Before Extraordinary Items) (Of Rs.10/- Each)						
i	Basic:	0.13	1.70	0.18	0.95	1.08	
	Diluted:	0.13	1.70	0.18	0.95	1.08	
7.	Earning Per Share (After Extraordinary Items) (Of Rs.10/- Each)						
1	Basic:	0.13	1.70	0.18	0.95	1.08	
	Diluted:	0.13	1.70	0.18	0.95	1.08	
Consolidated Result							

	Basic:	0.13	1.70	0.18	0.95	1.08		
	Diluted:	0.13	1.70	0.18	0.95	1.08		
			Cons	olidated R	esult			
Sr.		Qı	uarter Ende	d	Year I	Year Ended		
No.	Particulars Particulars	31.03.2023 Audited	31.12.2022 Unaudited	31.03.2022 Unaudited	31.03.2023 Audited	31.03.2022 Audited		
1.	Total Income from Operation (Net)	11,697.45	13,368.87	6,662.26	44,656.91	28,277.44		
2.	Net Profit/(Loss) from Ordinary Activities After Tax	1,800.85	1,735.43	158.87	7,410.28	2,945.85		
3.	Net Profit/(Loss) for The Period After Tax (After Extraordinary items)	1,800.85	1,735.43	158.87	7,410.28	2,945.85		
4.	Equity Share Capital	11,687.90	2,808.63	2,516.69	11,687.90	2,516.69		
5.	Reserves (Excluding Revaluation Reserve as Shown In The Balance Sheet of Previous Year)	-	-	-	15,796.97	5,201.96		
6.	Earning Per Share (Before Extraordinary Items) (Of Rs.10/- Each) Basic:	1.60	1.54	0.16	6.62	2.93		
	Diluted:	1.60	1.54	0.16	6.62	2.93		
7.	Earning Per Share (After Extraordinary Items) (Of Rs.10/- Each)							
L	Basic: Diluted:	1.60 1.60	1.54 1.54	0.16 0.16	6.62 6.62	2.93 2.93		

Notes:

Place : Mumbai

Date: 31/05/2023

1. The above statement of audited financial results were taken on record at the meeting of the Board of Directors held or

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine Monthly Financial Result filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full Format of the Quarterly/Nine Monthly Financial Result are available on the Stock Exchange Websites:www.bseindia.com and Company Website: www.magellanic-cloud.cor

By Order of the Board

Joseph Sudheer Reddy Thumma (Managing Director)



## SONATA FINANCE PRIVATE LIMITED FINANCE Regd. Office: II Floor, C.P-1, P.G. Tower, Kursi Road, Vikas Nagar, Lucknow - 226022

CIN: U65921UP1995PTC035286 PH No.- 0522-2334900

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/YEAR ENDED MARCH 31, 2023 Regulation 52(8) read with Regulation 52 (4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015

S. No.	Particulars	Quarter ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2023	Quarter ended March 31, 2022	Previous Year ended March 31, 2022
1	Total Income from Operations and Other Income.	11,576.21	39,882.18	7,252.83	29,753.68
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,231.69	5,545.07	745.91	2,053.23
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,231.69	5,545.07	745.91	2,053.23
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,415.67	4,156.26	534.07	1,362.16
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,381.37	4,144.83	554.93	1,359.01
6	Paid up Equity Share Capital	2,616.77	2,616.77	2,596.25	2,596.25
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	31,541.44	31,541.44	27,284.09	27,284.09
8	Securities Premium Account	21,011.73	21,011.73	20,839.09	20,839.09
9	Net Worth	34,158.21	34,158.21	29,880.34	29,880.34
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	2,03,230.63	2,03,230.63	1,38,693.50	1,38,693.51
11	Debt Equity Ratio	5.95	5.95	4.64	4.64
12	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic:	9.26	15.94	2.10	5.37
	2. Diluted:	9.16	15.77	2.13	5.27
13	Net profit margin (%)	20.87%	10.42%	7.30%	4.58%
14	Sector Specific equivalent ratios, as applicable:				
	a. Gross Non Performing Asset ('GNPA') in %)	2.72%	2.72%	4.67%	4.67%
	b. Net Non-Performing Asset ('NNPA') (in %)	0.90%	0.90%	1.34%	1.34%
	c. Provision Coverage Ratio (in %)	67.02%	67.02%	71.29%	71.29%

d. CRAR 16.55% 16.55% 21.69% 21.69% Note: (a) The above is an extract of the detailed format of annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015. The full format of the annual financial results are available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and the Company website www.sonataindia.com

(b) Except the ratios mentioned above, the other line items referred to in Regulation 52 (4) of the SEBI

(a) Except the ratios mentioned above, the other intelleters referred to in Regulation 52 (4) of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are not applicable to the company owing to the nature of business of the Company.

(c) The financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting standard (IndAS) as per the Companies (Indian Accounting standards) Rules, 2015 (as amended from time to time) and notified under section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act").

(d) Figures for the previous periods have been regrouped / rearranged whenever considered necessary to

confirm to the current period presentation. For Sonata Finance Private Limited sd/-(Managing Director) DIN: 00173413 Date: May 30, 2023 Place: New Delhi

## **RDC Concrete (India) Private Limited**

Regd. Office: DIL Complex, 701, 7th Floor, Thane One, Ghodbunder Road, Majiwade, Thane, Mumbai-400610 India

Email: manish.modani@rdcconcreteindia.com Phone: +91 9930999791 Website: www.rdcconcrete.com

CIN: U74999MH1993PTC172842

#### Extract of Statement of audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2023 (Rupees in Millions) Standalone Consolidated

			Quarter ended		Year e	ended Year		r ended	
Sr. No.	Particulars	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Audited	
1	Total Income from Operations	4,257.26	3,588.05	3,059.11	14,410.49	9,907.04	14,607.57	10,108.73	
7	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	217.61	63.17	148.32	443.65	325.64	436.80	316.26	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	217.61	63.17	148.32	443.65	325.64	436.80	316.26	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	140.21	29.26	281.43	294.74	419.87	294.86	401.63	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	140.38	28.38	281.71	295.40	421.00	295.44	402.70	
6	Paid up Equity Share Capital	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	
7	Other equity	-	-	-	331.01	(80.52)	432.45	20.83	
8	Securities Premium Account	63.68	63.68	63.68	63.68	63.68	63.68	63.68	
9	Net worth	417.75	252.07	6.23	417.75	6.23	519.20	107.58	
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	2,734.82	2,661.32	1,268.21	2,734.82	1,268.21	2,748.77	1,292.00	
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	46,739,910	46,739,910	46,739,910	46,739,910	46,739,910	46,739,910	46,739,910	
12	Debt Equity Ratio	6.55	10.56	203.71	6.55	203.71	5.29	12.01	
13	Earnings Per Share (of Rs. /- each) (for continuing and discontinued operations) -  1.Basic:  2.Diluted:	16.16 2.79	3.37	17.10	33.98 6.42	48.40 9.24	33.99 6.42	46.30 8.91	
14	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-	-	-	-	
	Debenture Redemption Reserve	-	-	-	-	-	-	-	
	Debt Service Coverage Ratio	0.57	0.39	0.67	1.23	1.48	1.24	1.46	
17	Interest Service Coverage Ratio	4.62	3.29	5.96	4.03	5.19	4.35	5.88	
	#-Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of	Profit and Loss	n accordance ···iti	h Ind AS Bules / A	C Bulos whichers	r is applicable			
	#-Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Notes:	FIOHE and LOSS	ii accordance Witi	I IIIu A3 Kules / A	o nuies, whicheve	i is applicable.		I	
	1101001	1						1	

Requirements), Regulations, 2015. The full format of the audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2023 are available on the BSE Ltd. (URL: https://www.bseindia.com) and on the website of the Company (URL: https://www.rdcconcrete.com) For the other line items referred in regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange and

The above is an extract of the audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure

re available on the BSE Ltd.(URL: https://www.bseindia.com) and on the website of the Company (URL: https://www.rdcconcrete.com)

The impact on net profit/ loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.

यूनियन बैंक 🌘 Union Bank Dames Commen

Ward No -21, Near Raj Ka Kuwan, Sardarshahar, Rajasthan-331403

POSSESSION NOTICE [Rule - 8 (1)] (For immovable property) NHEREAS the undersigned being the Authorized Officer of the Union Bank of India, Ward No -21, Near Raj Ka Kuwan, Sardarshahar,Rajasthan-331403 under the Securitization an Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act no.5 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of th Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued **Demand Notice dated 08/07/2021** callin ipon Borrower Mr. Vinod Kumar Soni & Mr. Govind Kumar Soni & Guarantor Mr. Basa umar Soni to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 9,22,815.92/- (Rupee Nine Lakhs Twenty-Two Thousand Eight Hundred Fifteen and Ninety-Two Paisa Only) ar terest and charges there on within 60 days from the date of receipt of the said notices. The borrower/mortgagor/guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby give

to the borrower/mortgagor/guarantor naving lands to repay the annotation, notice is never your to the borrower/mortgagor/guarantor and the public in general that the undersigned ha taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred o im under Section 13 (4) of the said Act read with the Rule 8 of the said Rules, 2002 on thi 26th day of May of the year 2023.

The borrower and guarantors in particular and the public in general are hereby cautioned no to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge o Union Bank of India, for an amount Rs. 9,22,815.92/- as on 31/03/2021 further interest & charges thereon. The borrower's attention is invited to the provisions of sub-section (8) or section (13) of the Act, in respect of the time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF SECURED ASSETS

All that part and parcel of Property consisting of flat/plot situated at near soni Dharamshala ward No. 20, Sardarshahar, Teh. Sardarshahar Dist. Churu, Rajasthan-331403 in the nam of Mr. Vinod Kumar Soni, Mr. Basant Kumar Soni and Mr. Govind Kumar Soni measuring Area 1330 Sq. feet and bounded as follows: North- House of Jodhraj Darji, South- House o Bhanwar Lal Soni, East- House of Sohan Lal Soni, West - Public Road **Authorised Officer** Date: 26-05-2023, Place: Sardarshahar

## Coforge Coforge Limited

CIN: L72100DL1992PLC048753

Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi-110019. Ph: 91 (11) 41029297 Email: investors@coforge.com Website: https://www.coforge.com NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

Notice is hereby given that the following share certificates issued by the Company is reported lost/misplaced by the shareholder/s. The shareholder/s has thereof applied to the

Company for the issuance of duplicate share continuate.					
Folio No.	Name of the Registered holder	Jointholder 1	Certificate No.	Distinctive Nos.	No. of Shares
2273	Dhan Dev	Mukesh Kumar	2297	10902877 - 10903044	168
2213	Dilaii Dev	wukesii Kuillai	7402	39238916 - 39238999	84
135	Chiranjiv Devgun		126	10616547 - 10616883	337
135	Crimanjiy Devgun		6062	39143161 - 39143328	168

Any person who has claim in respect of the above shares should communicate the same to the Company at its Registered Office (at above address) within 15 (fifteen) days from the date of this advertisement. The Company shall thereafter proceed to issue duplicate share certificate/s in respect of these shares. Thereafter any person dealing with such share certificate/s will be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences and the Company shall not be responsible for it in any manner.

For and on behalf o Coforge Limited Barkha Sharma Company Secretary

HDFC BANK Department For Special Operations - 5th Floor, Plot No. 1. and your world Ansal Classique Tower, Block J, Rajouri Garden, New Delhi-110027 POSSESSION NOTICE (SYMBOLIC) (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Dated: May 31, 2023

Place: Noida

(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)
Whereas, the Authorised Officer of HDFC Bank Ltd., under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2005 issued a demand notice dated 24.02.2023 calling upon the Borrower/Mortgagor/Guaranto M/s Kranti Automobiles Limited, through its Director/Guarantor, Mr Amit Bhatia, Ms. Nikita Bhatia, Ms Usha Bhatia to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 4,35,47,624.31 (Rupees Four Crore Thirty Five Lakh Forty Seven Thousand Six Hundred Twenty Four and Paise Thirty One Only) and interest thereon w.e.f 25.02.2023 together with future interest and charges thereon within 60 days of the receipt of the said notice. The borrower(s)/Guarantor(s Mortgagor(s) , having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s Guarantor(s)/Mortgagor(s), and the public in general, that the undersigned has taken possessio of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules, on this **31st day of May, 2022 at Haridwa** Uttrakhand. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower(s)/Mortgagor, in particular, and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and an dealings with the property will be subject to the charge of HDFC Bank Ltd, for an amount of **Ami Bhatia**, **Ms. Nikita Bhatia**, **Ms Usha Bhatia** to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 4,35,47,624.31 (Rupees Four Crore Thirty Five Lakh Forty Seven Thousand Six Hundred Twenty Four and Paise Thirty One Only) and interest thereon w.e.f 25.02.2023 and interest thereon as aforesaid together with expenses and charges etc.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY Description of the Property Date & Time of Possession ease hold rights on Plot No. 11, Sector 8-A, Industria 31.05.2023 Area, Integrated Industrial Estate, Ranipur, Haridwar Time 11.00 AM onwards Uttrakhand, admeasuring 1800 Sq meter.

Note: The above notice be also considered as 30 days notice for sale under rule 6,8 and 9 o Place: Haridwar, Uttrakhand, Date :31/05/2023 Authorised Officer, HDFC Bank Ltd

### **ABN INTERCORP LIMITED** F-01, TDI Centre, Jasola, New Delhi-110025 Phone No: 011-41324180

Email id: abncompliance@gmail.com CIN: L55101DL2005PLC140406

	(₹ in Lakhs except EPS d					
Sr. No.	Particulars	Half Year Ended 31/03/2023 (Audited)	Year Ended 31/03/2023 (Audited)	Half Yea Ended 31/03/202 (Audited		
1	Total Income From Operation	22.21	34.54	8.09		
2	Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	6.50	8.89	(4.65)		
3	Net Profit for the period before Tax (after exceptional items)	6.50	8.89	(4.65)		
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items)	4.19	6.58	(3.83)		
5	Total Comprehesive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4.19	6.58	(5.76)		
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/-each)	41.95	41.95	41.95		
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve).	-	964.91	-		
8	Earning Per Share (EPS) (of Rs. 10/- Each) (for continuing and discontinued operations) not annualised					
	(a) Basic	1.00	1.57	(0.91)		
	(b) Diluted	1.00	1.57	(0.91		

Note: The above is an extract of the detailed format of Financial year ended Results for the year ended 31st March 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Yearly Financia Results are available on the website of the stock exchange, website www.nseindia.com

Mr. Ajai Kumar Rasto PLACE : NEW DELHI DATE : 30-05-2023 Managing Director DIN: 00322447

> POSSESSION NOTICE (for immovable property)

the said Notice.

Place : GHAZIABAD

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued De 18.09.2021 calling upon the Borrowers VIRENDER RAWAT, VANDANA RAWAT AND HARISH MALHOTRA to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 11,07,296.49 (Rupees Eleven Lakhs Seven Thousand Two Hundred Ninety Six and Paise Forty Nine Only) against Loan Account No. HHLNOD00400056 as on 26.06.2021 and interest thereon within 60 days from the date of receipt o

The Borrower (s) having failed to repay the amount, Notice is hereby giver to the Borrower (s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of theSecurity Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 27.05.2023. The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs. 11,07,296.49 (Rupees Eleven Lakhs Seven Thousand Two Hundred Ninety Six and Paise Forty Nine Only) as on 26.06.2021 and interest thereon

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secure

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY FLAT NO. D 405 A, FIRST FLOOR , GDA FLAT, BLOCK D, SECTOR 4, LAJPAT

NAGAR, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH – 201010.

Date: 27.05.2023

Sd/ Authorized Office

INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

Jun 01, 2023

This is only an advertisement for information purposes and is not a prospectus announcement.



# **SONALIS CONSUMER PRODUCTS LIMITED**

Our Company was originally incorporated as "Sonalis Consumer Products Limited" on March 15, 2022, as a public limited company under the provisions of the Companies Act, 2013 pursuant to Certificate of Incorporation issued by Registrar of Companies, Central Registration Centre, Ministry of Corporate Affairs. The Corporate Identification Number of our Company is U15490MH2022PLC378461. For further details of our Company, see "General Information" and "History and Certain Corporate Matters" on pages 45 and 105, respectively of the Prospectus

Registered Office: Unit No. 16, Ground Level, Loft & Basement, Sethia Industrial Estate, Tungareshwar Phata Vasai East Palghar Thane, Maharashtra- 410208, India, Tel. No.: +91-98676 11444; Email: cs@appetitefood.in; Website: www.appetitefood.in; Contact Person: Ms. Ankita Chopra, Company Secretary

PROMOTERS OF THE COMPANY: MS. SONALI NILESH KOCHAREKAR AND MS. SMITA SHASHIKANT SHAH THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 9.44,000 EQUITY SHARES OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF SONALIS CONSUMER PRODUCTS LIMITED ("ISSUER" OR THE "COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 30/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹ 283.20 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH UPTO 52,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 15.60 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 8,92,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 30/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 267.60 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 47.22% AND 44.62%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 170 OF THE PROSPECTUS.

THIS ISSUE IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI (ICDR) REGULATIONS"), AS AMENDED. IN TERMS OF RULE 19(2)(b) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED, THIS IS AN ISSUE FOR AT LÉAST 25% OF THE POST-ISSUE PAID-ÙP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET ISSUE TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253 OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, AS AMENDED. FOR FURTHER DETAILS, SEE "ISSUE PROCEDURE" ON PAGE 179 OF THE PROSPECTUS.

**ISSUE** 

**OPENS ON WEDNESDAY, JUNE 7, 2023 CLOSES ON FRIDAY, JUNE 9, 2023** 

FIXED PRICE ISSUE AT ₹ 30/- PER EQUITY SHARE

THE ISSUE PRICE OF ₹ 30/- IS THREE TIMES OF THE FACE VALUE.

MINIMUM LOT SIZE 4,000 EQUITY SHARES FOR RETAIL INDIVIDUAL INVESTORS

4,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 4,000 EQUITY SHARES THEREAFTER FOR NON RETAIL INVESTORS

Simple, Safe, Smart way of Application Make use of it!!!

\*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same For details, check section on ASBA below. Mandatory in Public Issues from January 01, 2016 No cheque will be accepted.



UPI now available in ASBA for Retail Investors, whose application sizes are up to 2.00 lakhs, applying through Registered Brokers, DPs, & RTAs. Applicants to ensure PAN is updated in Bank Account being blocked by ASBA Bank. List of Banks supporting UPI is also available on SEBI at www.sebi.gov.in

For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 179 of the Prospectus. The process is also available on the website of AlBI and Stock Exchange in the General Information Document. ASBA forms can be downloaded from the website of BSE and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.

The Application Forms which do not have the details of the Applicant's depository account including DP ID, PAN, UPI ID (in case of RIBs using the UPI mechanism) and Beneficiary Account Number shall be treated as incomplete and rejected. In case DP ID, Client ID and PAN mentioned in the Application Form and entered into the electronic system of the stock exchange, do not match with the DP ID, Client ID and PAN available in the depository database, the application is liable to be rejected. Applicants will not have the option of getting allotment of the Equity Shares in physical form. The Equity Shares on allotment shall be traded only in the dematerialised segment of the Stock Exchange.

LISTING: The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended from time to time. Our Company has received an approval letter dated May 25, 2023 from BSE for using its name in the Offer Document for listing of our shares on the SME Platform of BSE Limited. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, the Prospectus was furnished to SEBI in soft copy. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire "Disclaimer Clause of SEBI" beginning on 164

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited ("BSE") should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the Price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by BSE, nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause pertaining to BSE.

	LEAD MANAGER TO THE ISSU
=	VD=DT
S	CORAL

1511 RG Trade Tower.

New Delhi - 110 034. India

Telephone: 011 4509 8234

Email: ipo@expertglobal.in

Website: www.expertglobal.in

compliance@expertglobal.in

Contact Person: Mr. Gaurav Jain

CIN: U74110DL2010PTC205995

SEBI registration number: INM000012874

Netaii Subhash Place, Pitampura

**Expert Global Consultants Private Limited** 



PURVASHAREGISTRY(INDIA)PRIVATELIMITED | SONALIS CONSUMER PRODUCTS LIMITED 9. Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg Opp. Kasturba Hospital Lane, Lower Parel (E) Mumbai – 400011 Maharashtra, India Telephone: 022 2301 2518 / 8261 Email/ Investor Grievance E-mail ID: support@purvashare.com Website: www.purvashare.com Contact Person: Mr. Rajesh Shah/ Ms. Purva Shah/ Ms. Deepali Dhuri SEBI Registration Number: INR000001112

Sonalis

Ms. Ankita Chopra (Company Secretary) & Mr. Shivang Shashikant Shah (Compliance Officer) Address: Unit No. 16. Ground Level. Loft & Basement Sethia Industrial Estate Tungareshwar Phata Vasai East Palghar Thane, Maharashtra - 410208, India. Telephone: +91-98676 11444

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

E-mail: cs@appetitefood.in Website: www.appetitefood.in CIN: U15490MH2022PLC378461

Applicants can contact the Compliance Officer or the LM or the Registrar to the Issue in case of any Pre-Issue or Post-Issue related problems, such as non-receipt of Allotment Advice or credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or unblocking of funds etc.

CIN: U67120MH1993PTC074079

CREDIT RATING: As this is an Issue of Equity Shares there is no credit rating for this issue. **DEBENTURE TRUSTEES:** This is an Issue of equity shares; hence appointment of debenture trustee is not required.

IPO GRADING: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, there is no requirement of appointing an IPO

BASIS FOR ISSUE PRICE: The Issue Price is determined by our Company in consultation with the Lead Manager. The financial data presented in the section "Basis for Issue Price" on page 69 of the Prospectus, are based on our Company's restated financial statements. Investors should also refer to the sections titled "Risk Factors" and "Summary of Financial Statements" on pages 23 and 42, respectively, to get a more informed view before making the investment decision.

BANKER TO THE ISSUE AND SPONSOR BANK: ICICI BANK LIMITED

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: The Application Forms and copies of the Prospectus may be obtained from the Registered Office of our Company, Lead Manager: Expert Global Consultants Private Limited. Application Forms will be available at the selected location of registered brokers, Banker to the Issue, RTA and Depository Participants. Application Forms can also be obtained from the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. Application Forms can also be downloaded from the website of Stock Exchange at www.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factor contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus shall be available at the website of SEBI, www.sebi.gov.in; the website of Stock Exchange- www.bsesme.com, the website of Lead Manager- www.expertglobal.in and the website of the Issuer Company-www.appetitefood.in.

RISK TO INVESTORS: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section, "Risk Factors" on page 23 of the Prospectus.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Main Objects of the Company as per MoA: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 105 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for

Liability of Members as per MoA: The Liability of the members of the Company is Limited.

Capital Structure: Authorized Capital of ₹ 200.00 Lakhs consisting of 20,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each. Pre Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital ₹ 105.50 Lakhs consisting of 10,55,000 Equity Shares of ₹ 10/- each. Post Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital ₹ 199.90 Lakhs consisting of 19,99,000 Equity Shares of ₹ 10/- each. For details of the Capital Structure, please refer to the chapter titled "Capital Structure" beginning on page 53 of the Prospectus.

Names of the signatories to the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them:

Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: 23,500 Equity Shares by Ms. Sonali Nilesh Kocharekar, 23,500 Equity Shares by Ms. Smita Shashikant Shah. 2,750 Equity Shares by Mr. Shashikant Chimanlal Shah. 120 Equity Shares by Mr. Shiyang Shashikant Shah. 120 Equity Shares by Mr. Prakash Jhangiani, 5 Equity Shares by Mr. Ganjanan Vithal Chavan and 5 Equity Shares by Mr. Akshay Vitthal Bhadrike.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated May 30, 2023. Investors should read the Prospectus carefully, including the "Risk Factors" on page 23 of the Prospectus before making any investment decision

> For Sonalis Consumer Products Limited On behalf of the Board of Directors

Place: Maharashtra Date: May 31, 2023 Ms. Sonali Nilesh Kocharekar

दिनांक : 01-06-2023 स्थान : नई दिल्ली

SONALIS CONSUMER PRODUCTS LIMITED subject to market conditions, public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra, The Prospectus shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.expertglobal.in, the website of the BSE i.e. www.bsesme.com, and website of the Issuer Company at www.appetitefood.in. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 23 of the Prospectus, which has been filed with ROC.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be Issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का रे रजि. आफिस : एनडीपीएल हाउस, हंडसन् लाइन, किंग्सवे केम, दिल्ली–11000 फोन : 66112222, फैक्स : 27468042, इमेल : TPDDL@tatapower-ddl.com CIN No. : U40109DL2001PLC111526, वेबसाइंट : www.tatapower-ddl.com

निविदा सूचना आमंत्रित

टाटा पावर-डीडीएल निम्न मदों के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है: बोली जमा कराने की निविदा पूछताछ सं. अंतिम तारीख और समय, निविदा खोलने लागत/धरोहर दस्तावेज जमा राशि (रु) | की बिक्री PDDL/ENGG/ENQ/200001546/23-24 22.06.2023;1400 Hrs/ 01.06.2023 C for Supply of 11mtr and 9mtr PCC 6 62 000 22 06 2023 1430 Hrs. TPDDL/ENGG/ENQ/200001547/23-24 20.42 Crs/ 02.06.2023 C for Meter Reading and Bill 16.33.000 TPDDL/ENGG/ENQ/200001545/23-24 RC for Supply of 11kV/33kV/66kV 63.70 Lacs/ 01.06.2023 22.06.2023;1500 Hrs/

Ts, PTs and NCTs in TPDDL.	1,60,000		22.06.2023;1600 Hrs			
शुद्धिपत्र / निविदा तिथि विस्तार						
<b>निविदा पूछताछ सं</b> . कार्य का विवरण	पूर्व प्रकाशिः दिनांक	त जिमा	त निविदा तिथि/बोली कराने की तिथि/बोली खोलने की तिथि			
PDDL/ENGG/ENQ/200001538/23-24 upply of 33kV Outdoor Vacuum rcuit Breakers	13.05.20	09.06	5.2023 at 1630 Hrs/ 5.2023 at 1700 Hrs			
पूर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध						

website www.tatapower-ddl.com→Vendor Zone → Tender / Corrigendum Docun Contracts - 011-66112222

के माध्यम से आयोजित की जानेवाली 27वीं वार्षिक आम बैठक

प्रधान कार्यालयः स्टार हाउस, सी-5, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुल बैंक ऑफ़ इंडिया **BOI** Bank of India कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई.), मुंबई — 400 051

सूचना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम)

वेंक के शेयरधारक ध्यान दें कि इस संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और भारतीय प्रतिभति एव वेनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र (पत्रों) के अनुसरण में, बैंक की **27वीं वार्षिक आम<sup>ें</sup> बैठक** (एजीएम), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से ांगलवार **27 जून 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आईएसटी पर** आयोजित की जाएगी, ताकि उन यवसायों का लेन–देन किया जा सके, जिनका निर्धारण बैठक की सूचना में किया जाएगा। उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां, उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिनके ईमेल पते, बैंक / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(ट्स) के साथ पंजीकृत हैं। अभौतिक प्रारूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक और जिनकी ईमेल आईडी पंजीकत नहीं हैं. उनसे अनरोध है कि वे अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी में अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से पंजीकृत कराएं भौतिक प्रारूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनरोध है कि वे अपने होल्डिंग्स को डीमैट करें / अपना र्रमेल पता और मोबादल नंबर मैसर्स बिगशेयर सर्विसेल पादवेट लिमिटेड बैंक के रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट को investor@bigshareonline.com पर प्रस्तुत करें 27वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट 2022—23 की सचना बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों पर और आरटीए की वेबसाइट https://www.bigshareonline.com/InvestorLogin.aspx ਪਰ भੀ ਰਧਾਰਵ। कराई जाएगी।

शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर दरस्थ रूप से अपना वोट डालने का अवसर होगा। अभौतिक प्रारूप, भौतिक गुरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए और अपने ईमेल पते पंजीकत नहीं करने वाले शेयरधारकों के लिए रिमोट वोटिंग का तरीका, शेयरधारकों हेतु सूचना में उपलब्ध कराया गएगा। विवरण, बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस तरह के विवरण प्राप्त करने के लिए www.bankofindia.co.in पर जाएं। शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, बैंक एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां शेयरधारकों को नहीं भेजेगा।

रोयरधारकों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे लाभांश 2022–23 प्राप्त करने के लिए कोलियो / डीमैट खाते में अपने बैंक खाता विवरण को अद्यतन कर लें।

कृते बैंक ऑफ इंडिया रजनीश कर्नाटक स्थान : मुंबई प्रबंध निदेशक एवं सीईओ दिनांक : 01-06-2023

🜆 बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम) 13 पंजीकृत कार्यालयः 21, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001 दूरभाष सं.: 22225290, ईमेलः sharma.bhaskar@balmerlawrie.com सीआईएन:L15492WB1924GOI004835, वेबसाइटः www.balmerlawrie.com

विधिक अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए निविदा सूचना

बामर लॉरी द्वारा विधिक अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए अनुभवी बोलीदाताओं से ऑनलाइन बोलियाँ आमंत्रित की जाती है। इच्छुक बोलीदाता वेबसाइट से निविदा डाउनलोड करें। जमा करने की अंतिम तारीख 21.06.2023 है। कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र कंपनी की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

## **Coforge** Coforge Limited

CIN: L72100DL1992PLC048753

Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi-110019. Ph: 91 (11) 41029297

Email: investors@coforge.com Website: https://www.coforge.com NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

Notice is hereby given that the following share certificates issued by the Company is reported lost/misplaced by the shareholder/s. The shareholder/s has thereof applied to the Company for the issuance of duplicate share certificate:

olio No.	Name of the Registered holder	Jointholder 1	Certificate No.	Distinctive Nos.	No. of Shares
273	Dhan Dev	v Mukesh Kumar 2297 109 7402 392	2297	10902877 - 10903044	168
213	Dilali Dev		39238916 - 39238999	84	
135	Chiranjiv Devgun		126	10616547 - 10616883	337
			6062	301/3161 - 301/3338	168

Any person who has claim in respect of the above shares should communicate the same to the Company at its Registered Office (at above address) within 15 (fifteen) days from the date of this advertisement. The Company shall thereafter proceed to issue duplicate share certificate/s in respect of these shares. Thereafter any person dealing with such share certificate/s will be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences an the Company shall not be responsible for it in any manner.

Coforge Limited

Dated: May 31, 2023 Place: Noida

Company Secretary





Barkha Sharma

## उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि०

निकट रेलवे क्रॉसिंग, बद्रीप्र रोड़, जोगीवाला, देहरादन-248001 (उत्तराखण्ड) दुरभाष-0135-29744413 ई-मेल- uksugars@gmail.com वैबसाईट- www.uttarakhandsugars.com GST No. 05AABFU7713K2Z1

पत्रांक-435/तकनीकी-01(VI)/2023-24. दिनांक- 31 मई 2023 उत्तराखण्ड शुगर्स के अधीनस्थ सहकारी व सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों क्रमश: बाजपुर एवं किच्छा में ब्वायलर अप-ग्रेडेशन के कार्य हेतू ई-निविदा प्रपत्र, आदेश/अनुबन्ध, कराये जाने वाले कार्यो का पूर्ण स्पेशीफिकेशन इत्यादि तैयार कराये जाने हेतु सलाहाकार/एजेंसी की नियुक्ति हेतु

\_\_\_\_\_ उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों क्रमश: बाजपर एवं किच्छा में ब्वायलर अप–ग्रेडेशन के कार्य हेत् ई–निविदा प्रपत्र, आदेश/अनुबन्ध, कराये जाने वाले कार्यों का पूर्ण स्पेशीफिकेशन अन्य आवश्यक इत्यादि तैयार कराये जाने हेतु इच्छुक सलाहकारों / एजेंसी के आवेदन पत्र आंम्रजित किरो जाते है।

उपरोक्त वांछित कार्य सम्पादन हेतू इच्छ्रक सलाहकारों/एजेंसी अपने पक्ष में विभागीय वेबसाईट में अंकित विवरणानुसार अनुभव/पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं वांछित अभिलेखों को संलब्ज करते हुए अपनी दर प्रस्ताव विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर ई-मेल (uksugars@gmail.com) एवं पंजीकृत डाक के माध्यम से मुख्यालय में जमा कराना होगा। प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड शुगर्स को किसी एक अथवा सभी प्रस्तावों को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सूरक्षित रहेगा। प्रस्तावों से सम्बन्धित नियम एवं शर्ते कार्यालय की वेबसाईड (<u>www.uttarakhandsugars.com</u>) पर उपलब्ध है।

www.uttarakhandsugars.com पर ही दिया जायेगा। निविदादाता अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से इन वेबसाइट को पढते रहें।

प्रबन्ध निदेशक

## ≡IndiaShelter इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नामा है। प्रतिहरूत कार्यालय : प्लॉट-15, 6ठी मंजिल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव, हरियाणा-12200, शाखा कार्यालय आशीर्वाद प्लाजा, प्रज्ञा स्कूल की लाइन में, ब्यावर रोड, बिजय नगर, बिजयनगर, राजस्थान 305624 शाखा कार्यालय शॉप नंबर- 220 सेकेंड फ्लोर, गंधार कॉम्प्लेक्स, होटल कृष्ण . फे पास, भगत, चौराहा, ब्यावर, राजस्थान 305901 शाखा कार्यालयः शॉप नंबर 67बी और 68, दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 277 (पूर्व), टैगोर डीसीएम के आगे, अजमेर रोड, जयपुर-302021, राजस्थान

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन (प्रतिभृति) हित अधिनियम, 2002 के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में वर्तमान में इण्डिया शेल्टर फाइनेंस एण्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधिकृत प्राधिका होने के नाते कर्जदार तथा सम्पत्ति/आश्वरित के स्वामी से कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर यहाँ आगे उल्लिखित खाते के सम्मुख लिखित तिथि पर राशि क पनभंगतान करने को कहते हुए एक माँग सचना जारी की थी। जैसा कि सम्पत्ति के स्वामी तथा अन्य राशि के पनभंगतान में असफल रहे अतः एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदा . अंधा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तिय के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है। अब कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति/यों के साथ कोई संव्यवह न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति,यों के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज, लागतों आदि के लिए इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेश लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

क्र. कर्जदार/जमानती का नाम (सम्पत्ति के प्रभारित/बंधक सम्पत्ति का विवरण माँग सूचना की तिथि, माँग सूचना की भौतिक कब्ज

सं.	स्वामी) तथा ऋण खाता संख्या	(निम्निलिखित से निर्मित सम्पत्ति का समस्त	तिथि तक बकाया राशि	की तिथि
		भाग)		
1	श्री/श्रीमती शांति देवी और महेंद्र सिंह निवासी: वार्ड नंबर 33 जब भवानी कॉलोनी फतेहपुरिवा दोवम क्यावर 305901 राजस्थान ऋण खाता सं. LAP200004660 और LA30ECLONS0000 05032868 और LA30LALCNS000005027028 और LA30TLLCNS000005008857	101.66 वर्ग गज, जय भवानी कॉलोनी, खसरा नंबर -330 -ग्राम फतेहपुरिया दोयम, तहसील ब्यावर, जिला- अजमेर (राज.) सीमा- पूर्व- श्री अमर सिंह का मकान, पश्चिम-श्री भंवर सिंह का	रु. 1501625.97/- (रुपये पंद्रह लाख एक हजार छह सौ पच्चीस और सत्तानवे पैसे मात्र) दिनांक 09.06.2022 तक देय, साथ में दिनांक 10.06.2022 से ब्याज और भुगतान	26/05/2023
2		पट्टा संख्या 40 वाली संपत्ति का समस्त भाग, ग्राम गोवलिया जीपी करंती पीएस भिनय, जिला अजमेर राजस्थान 305624		30/05/2023
3	श्रीमती पुष्पा सैनी और श्री भागचंद सैनी निवासी: प्लॉट नंबर 55 और 56 विजय नगर, बनार रोड, दौलतपुरा, नींदर, जयपुर- 302012, राजस्थान ऋण खाता संख्या CHL100005866	प्लॉट संख्या 55 और 56 वाली संपत्ति का समस्त भाग, योजना विजय नगर XI, दौलतपुरा, बनार, जयपुर 302012 राजस्थान, क्षेत्रफल 508.7 वर्ग गज। संपत्ति की सीमाएं: पूर्व-सङ्क, पश्चिम-प्लॉट संख्या 66-65-64, उत्तर-प्लॉट संख्या 53- 54,दक्षिण- अन्य भूमि	रु. 7929811.12/- (रुपये उन्यासी लाख उनतीस हजार आठ सौ ग्यारह और बारह पैसे मात्र) दिनांक 09.06.2022 तक देय तथा	29/05/2023
स्थान	न : राजस्थान, तिथि : 01.06.2023	( अधिकृ	त प्राधिकारी) इण्डिया शेल्टर कॉर्पोरेशन प	<b>हाइनेंस</b> लिमिटेड

किसी पुछताछ के लिए कृपया संपर्क करें : श्री विनय राणा (+91 7988605030) और श्री सिद्धार्थ सिंह (+91 7891119990)

## Edelweiss | ASSET | RECONSTRUCTION

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड कॉर्पोरेट पहचान संख्या: U67100MH2007PLC174759 पंजीकृत कार्यालयः एडलवाइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलिना, सांताक्रूज (ई.), मुंबई-400 098, दूर:+91 22 4088 6090/6620 3149, संपर्क केंद्र नं: 1800 2666540

अचल संपत्ति के विक्रयार्थ ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

**खलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ईएआरसी ट्रस्ट 458** के पास गिरवी अचल संपत्ति की बिक्री के लिये ई—नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हि . प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिय 2002 (''अधिनियम'') के तहत। एतदद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से ऋणकर्ता / बंधककर्ताओं / गारंटरों को सचित किया जाता : कि **एडलवाइस एसेट रिकस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ईएआरसी ट्रस्ट 458** के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित ऋण खाते में अधिनियम की धारा 13(2) के ाइत जारी की गई मांग के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति का **भौतिक कब्जा** ले लिया था ताकि वह उन्हें ''जैसी है जहां है, जैसी है जो है, वहां जो कुछ भी और बिना किसी उपाय" आधार पर यहां नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार बैंक की बकाया राशि और ब्याज की वसूली करने हेतु बेचने के अधिकार के साथ बेच सके और चंकि देय राशि चकाने में विफलता के परिणामस्वरूप अधोहस्ताक्षरी उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संपत्ति की बिक्री द्वारा बैंक की देयराशियों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। नीचे उल्लिखि संपत्ति की बिक्री वेब पोर्टलः https://www.bankeauctions.com के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा की जाएगीः

	क्र. सं	खाता / बंधककताओ / गारंटरॉ का नाम	कुल देनदारियाः			
	1.	बालाजी चेम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, किशन लाल मित्तल, संपत मित्तल, मुकेश मित्तल, विनय कुमार सिंघल, और अशिता कुमारी	v. 6.40,03,874.43 (रुपये छह करोड़, चालीस लाख, तीन हजार, आठ र चीहत्तर और पैसे तैंतालीस मात्र), 31.01.2022 के अनुसार			
ſ		संपत्ति		आरक्षित मूल्य	ई—नीलामी की तिथि	बोली जमा की

। सपद्वि ।	आराक्षत मूल्य	इ—नीलामी की तिथि	बाला जमा का
के विवरण	धराज	एवं समय	अंतिम तिथि
r 11111	बोली वृद्धि राशि		
बंधककृत संपत्ति ई-201 के समस्त वह भाग तथा अंश, जो द्वितीय तल पर (छताधिकारों		05.07.2023	03.07.2023
के बिना), ग्रेटर कैलाश, पार्ट—।, नई दिल्ली—110048 में स्थित है, जिसका अधिमापन	रु. 32.50 लाख	11.00 बजे से	को 05.00
208 वर्ग गज है।	<b>ড. 1.00 লা</b> জ	12.00 बजे तक	बजे तक
बंधककृत संपत्ति फ्लैट बी-43/जी1 के समस्त वह भाग तथा अंश, जो भू तल पर,	रु. 1.01 करोड़	05.07.2023	03.07.2023
ब्लॉक बी, दिलशाद गार्डन, दिल्ली—110095 में स्थित है, जिसका अधिमापन 1400 वर्ग	<b>হ. 10.10 লা</b> ৰ্জ	1.00 बजे से	को 05.00
फुट है।	<b>ড. 1.00 লা</b> জ্ঞ	2.00 बजे तक	बजे तक

दूरभाष सं.: (+91 22-41830745/ 9990799379)

**नियम और शर्ते: 1**. इच्छूक बोलीकर्ता अपना ईएमडी विवरण और दस्तावेज लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से वेब पोर्टल: https:www.bankeauctions.coi गिन आईडी और पासवर्ड https://www.bankeauctions.com के साथ नाम पंजीकृत करके नि:शुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं) के माध्यम से प्रस्तुत कर होंगे। ईएमडी, मंबई में ईएआरसी टस्ट एससी–458 के पक्ष में डिमांड डाफ्ट के माध्यम से उपरोक्त तालिका में उल्लिखित तिथियों को या उससे पहले देय होगी कुपया ध्यान दें कि चेक को इंएमखी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2 हालांकि बैंक किसी भी बकाया वैधानिक देय राशि /ऋणगार / कर बकाया यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणगारों, संपत्ति(यों) के स्वामित्व के संबंध में स्वयं का निरीक्षण करने और स्वयं को संतुष्ट करने के बारे में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई तिथि एवं समय के अनुसार ही सम्पत्ति का कड़ाई से निरीक्षण किया सकता है। 3 इच्छक बोलीकर्ता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने. डेटा अपलोड करने. बोली जमा करने ई–बोली प्रक्रिय राष्ट्रपा है। डे इंप्युक्त बार्तिया। को आवश्यकता है, वे हमारे **सेवा प्रदात मैसर्स सी। इडिया प्राह्वेट लिमिटेड, डेस्पलाइन नंबर** 0124—4302020/2021/2022/2023/2024, श्री मिधलेश कुमार, मो. नंबर 91–7080804488, ईमेल आईडीः support@bankeauctions.com से संपर्क कर राहर ने अधिकारी करने कर सकते हैं। 4. उच्चतम बोली एडल**वाइस एसेट रिकंस्ट्रकान कंपनी लिमिटेड ईएआरसी ट्रस्ट 458** के अनुमोदन के अधीन होगी ग्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी प्रस्ताव/बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। उनका निर्णय अंति और बाध्यकारी होगा। **5.** विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए बैंक की **वेबसाइट www.edelweissarc.in और www.bankeauctions.com** देखें।

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 8(6) एवं नियम 9(1) के अंतर्गत 30 दिवसीय सांविधिक विक्रय सूचना उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककराओं को अधिसूचित किया जाता है कि ई-नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त अंकित राशि के साथ-साथ अध्यत व्याज और सहायक व्ययों का मुगतान कर दें, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली व्याज और लागत सहित की जायेगी।

प्राधिकृत अधिकारी एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी–ट्रस्ट–एससी–458 के ट्रस्टी)



नेविदा के विस्तत दस्तावेज बैंक की वेबसाइ www.indianbank.in पर टेंडर सेक्शन में ए सरकारी ई मार्केटप्लेस (जीईएम पोर्टल सरकारी इ नाक टर्जन स्व www.gem.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा के दस्तावेजों में किसी भी परिवर्तन सहिर युक्तिका/शुद्धिपत्र की सूचना बँक की वेबसाइट् www.indianbank.in एवं सरकारी ई माकॅटप्लेस् पोर्टल) www.gem.gov.in के माध्यम से द

Personal Finance, **Insight Out** 



Personal Finance, Monday to Saturday

To book your copy, sms reachbs to **57575** or email order@bsmail.in

> **Business Standard** Insight Out